



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 नवम्बर, 2020
अग्रहायण 5, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश

संख्या 4/830-2020-4-106(लखनऊ)-2014
लखनऊ, 26 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-331

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद लखनऊ की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/81/2015-4/106(लखनऊ)/2014, दिनांक 12 जनवरी, 2015 में विकास खण्ड चिनहट, बक्शी का तालाब, माल, मलिहाबाद, काकोरी, सरोजनीनगर, मोहनलालगंज एवं गोसाईगंज की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

सारिणी

जनपद का नाम—लखनऊ

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	चिनहट	जुग्गौर	जुग्गौर	1	चिनहट	जुग्गौर	जुग्गौर
2		मेहौरा	मेहौरा	2		मेहौरा	मेहौरा
3		सिकन्दरपुर खुर्द	सिकन्दरपुर खुर्द	3		सिकन्दरपुर खुर्द	सिकन्दरपुर खुर्द
4		सरायं शेख	सरायं शेख			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			टेरा खास			अधिसूचना संख्या-2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)/2016 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
5		सेमरा	सेमरा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
6		शाहपुर	शाहपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
7		निजामपुर मल्हौर	निजामपुर मल्हौर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
8		देवरिया	देवरिया	4		देवरिया	देवरिया
9		हासेमऊ	हासेमऊ			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
10		लौलाई	लौलाई			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
11		भरवारा	भरवारा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
12		मलेशेमऊ	मलेशेमऊ			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
13		मखदूमपुर	मखदूमपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
14		खरगापुर	खरगापुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
15		बाघामऊ	बाघामऊ			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
16		चन्दियामऊ	चन्दियामऊ			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			भैसौरा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			लोनापुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
17		गनेशपुर रहमानपुर	गनेशपुर रहमानपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
18		नौबस्ता कला	नौबस्ताकला			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
19		धावा	धावां			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
20		अनौरा कला	अनौराकला	5		अनौरा कला	अनौराकला
21		नरेन्दी	नरेन्दी	6		नरेन्दी	नरेन्दी
22		पपनामऊ	पपनामऊ	7		पपनामऊ	पपनामऊ
23		उत्तरधौना	उत्तरधौना			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
24		बौरूमऊ	बौरूमऊ	8		बौरूमऊ	बौरूमऊ
25		रैथा	रैथा	9		रैथा	रैथा
26		धतिंगरा	धतिंगरा	10		धतिंगरा	धतिंगरा
27		पश्चिम गांव	पश्चिम गांव	11		पश्चिम गांव	पश्चिम गांव
			पुरवा				पुरवा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
28		दुगवर	दुगवर	12		दुगवर	दुगवर
29		धोबेला	धोबेला	13		धोबेला	धोबेला
			कमलाबाद				कमलाबाद
			कमलापुर				कमलापुर
30		सरोरा	सरोरा	14		सरोरा	सरोरा
			खटइया				खटइया
31		कोडरी भौली	कोडरी भौली	15		कोडरी भौली	कोडरी भौली
			लक्ष्मीपुर				लक्ष्मीपुर
32		सैरपुर	सैरपुर	16		सैरपुर	सैरपुर
			पूरबगांव				पूरबगांव
33		भिटौली खुर्द	भिटौलीखुर्द			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
34		रायपुर	रायपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
35		मुतक्कीपुर	मुतक्कीपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
36		खरगपुर जागीर	खरगपुर जागीर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			मुहिद्दीनपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
37		तिवारीपुर	तिवारीपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
38		सैदपुर जागीर	सैदपुर जागीर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
39		मिर्जापुर	मिर्जापुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
40		अल्लूनगर डिगुरिया	अल्लूनगर डिगुरिया			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
			ककौली			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
41		घैला	घैला			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
42		नरहरपुर	नरहरपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			अलीनगर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
43		पल्हरी	पल्हरी	17		पल्हरी	पल्हरी
44		फरुखाबाद	फरुखाबाद	18		फरुखाबाद	फरुखाबाद
			सैदापुर				सैदापुर
45	बी०के०टी०	मुसपिपरी	मुसपिपरी	19	बी०के०टी०	मुसपिपरी	मुसपिपरी
			उमरिया				उमरिया
			हिम्मतपुर				हिम्मतपुर
46		गोधना	गोधना	20		गोधना	गोधना
			नरायनपुर				नरायनपुर
			कुवंरपुर				कुवंरपुर
47		कुनौरा शाहपुर	कुनौरा	21		कुनौरा शाहपुर	कुनौरा
			शाहपुर नजूल				शाहपुर नजूल
			लालपुर				लालपुर
48		सुवंशीपुर	सुवंशीपुर	22		सुवंशीपुर	सुवंशीपुर
			पुहुपपुर				पुहुपपुर
49		अटेसुवा	अटेसुवा	23		अटेसुवा	अटेसुवा
50		हनुमन्तपुर	हनुमन्तपुर	24		हनुमन्तपुर	हनुमन्तपुर
51		असनहा	असनहा	25		असनहा	असनहा
			भिखारीपुर				भिखारीपुर
52		ढिलवासी	ढिलवासी	26		ढिलवासी	ढिलवासी
			पट्टी				पट्टी
			खानपुर				खानपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
53		चंदनापुर	चन्दनापुर	27		चंदनापुर	चन्दनापुर
54		अरम्बा	अरम्बा	28		अरम्बा	अरम्बा
55		गोहनाखुर्द	गोहनाखुर्द	29		गोहनाखुर्द	गोहनाखुर्द
56		शिवरी	शिवरी	30		शिवरी	शिवरी
57		सरायं दामू	सरायं दामू	31		सरायं दामू	सरायं दामू
58		भगौतीपुर	भगौतीपुर	32		भगौतीपुर	भगौतीपुर
			भट्टेसुवा				भट्टेसुवा
59		बनौगा	बनौगा	33		बनौगा	बनौगा
60		बगहा	बगहा	34		बगहा	बगहा
61		बाहरगांव	बाहरगांव	35		बाहरगांव	बाहरगांव
62		सहादतनगर गढ़ा	सहादतनगर	36		सहादतनगर गढ़ा	सहादतनगर
			गढ़ा				गढ़ा
63		जमखनवा	जमखनवा	37		जमखनवा	जमखनवा
64		दुधरा	दुधरा	38		दुधरा	दुधरा
65		अकड़रियाकला	अकड़रियाकला	39		अकड़रियाकला	अकड़रियाकला
66		करौंदी	करौंदी	40		करौंदी	करौंदी
67		उसरना	उसरना	41		उसरना	उसरना
68		किशुनपुर	किशुनपुर	42		किशुनपुर	किशुनपुर
			करसण्डा				करसण्डा
69		पृथ्वीनगर	पृथ्वीनगर	43		पृथ्वीनगर	पृथ्वीनगर
			अकबरपुर				अकबरपुर
70		अहमदपुर खेड़ा	अहमदपुर खेड़ा	44		अहमदपुर खेड़ा	अहमदपुर खेड़ा
			डेरवा				डेरवा
71		चांदपुरखानीपुर	चांदपुर खानीपुर	45		चांदपुरखानीपुर	चांदपुर खानीपुर
72		माधौपुर	माधौपुर	46		माधौपुर	माधौपुर
			सरायं उसरना				सरायं उसरना
73		रायपुर राजा	रायपुर राजा	47		रायपुर राजा	रायपुर राजा
74		मलूकपुर	मलूकपुर	48		मलूकपुर	मलूकपुर
			गोरही				गोरही
			मरपा				मरपा
75		लोधौली	लोधौली	49		लोधौली	लोधौली
			मानपुर राजा				मानपुर राजा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
76		नगर चौगवां	चौगवां	50		नगर चौगवां	चौगवां
			बेलवा				बेलवा
			बहादुरगंज				बहादुरगंज
77		पालपुर	पालपुर	51		पालपुर	पालपुर
			कमालपुर कायस्थ				कमालपुर कायस्थ
			बनगांव				बनगांव
78		बीबीपुर	बीबीपुर	52		बीबीपुर	बीबीपुर
			चकबीबीपुर				चकबीबीपुर
79		दौलतपुर	दौलतपुर	53		दौलतपुर	दौलतपुर
			चक बनकट				चक बनकट
80		जलालपुर	जलालपुर	54		जलालपुर	जलालपुर
81		खेसरावां	खेसरावां	55		खेसरावां	खेसरावां
			कमालपुर सिरसा				कमालपुर सिरसा
82		चक पृथ्वीपुर	चकपृथ्वीपुर	56		चक पृथ्वीपुर	चकपृथ्वीपुर
			अर्जुनपुर				अर्जुनपुर
			पृथ्वीपुर (गैरआबाद)				पृथ्वीपुर (गैर आबाद)
83		देवरी रूखारा	देवरी रूखारा	57		देवरी रूखारा	देवरी रूखारा
84		टिकारी	टिकारी	58		टिकारी	टिकारी
85		गुडम्बा	गुडम्बा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
86		आधारखेड़ा	आधारखेड़ा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
87		बरखुरदारपुर	बरखुरदारपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
88		मिश्रपुर	मिश्रपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
89		गोहनाकला	गोहनाकला	59		गोहनाकला	गोहनाकला

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
90		रसूलपुर कायस्थ	रसूलपुर कायस्थ				अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित
			अजनहर कला				अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित
91		चन्दाकोडर	चन्दाकोडर	60		चन्दाकोडर	चन्दाकोडर
			दिनकरपुर झलौवा				दिनकरपुर झलौवा
92		अचरामऊ	अचरामऊ	61		अचरामऊ	अचरामऊ
93		दुर्जनपुर	दुर्जनपुर	62		दुर्जनपुर	दुर्जनपुर
			राजापुर				राजापुर
94		कठवारा	कठवारा	63		कठवारा	कठवारा
95		मझोरिया	मझोरिया	64		मझोरिया	मझोरिया
			शिवखड़				शिवखड़
			पर्वतपुर				पर्वतपुर
96		हरधौरपुर	हरधौरपुर	65		हरधौरपुर	हरधौरपुर
			बीकामऊ कला				बीकामऊ कला
97		मदारीपुर	मदारीपुर	66		मदारीपुर	मदारीपुर
98		बरगदीकला	बरगदी कला	67		बरगदीकला	बरगदी कला
99		मण्डौली	मण्डौली	68		मण्डौली	मण्डौली
			बेहड़ करौंदी				बेहड़ करौंदी
100		शिवपुरी	शिवपुरी	69		शिवपुरी	शिवपुरी
			भीखमपुर				भीखमपुर
101		सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	70		सुल्तानपुर	सुल्तानपुर
102		सिंहामऊ	सिंहामऊ	71		सिंहामऊ	सिंहामऊ
			शाहपुर राजा				शाहपुर राजा
103		सोनवा	सोनवा	72		सोनवा	सोनवा
			डींगुरपुर				डींगुरपुर
104		मिश्रीपुर	मिश्रीपुर	73		मिश्रीपुर	मिश्रीपुर
105		डिगोई	डिगोई	74		डिगोई	डिगोई
106		रामपुर बेहड़ा	रामपुर बेहड़ा	75		रामपुर बेहड़ा	रामपुर बेहड़ा
107		नगवामऊ	नगवामऊ कला	76		नगवामऊ	नगवामऊ कला

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
108		रसूलपुर सादात	रसूलपुर सादात			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			मोहम्मदपुर मजरा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
109		गोइला	गोइला			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
110		कपासी	कपासी	77		कपासी	कपासी
111		रजौली	रजौली	78		रजौली	रजौली
112		पारा	पारा	79		पारा	पारा
113		बेहटा	बेहटा	80		बेहटा	बेहटा
114		पैकरामऊ	पैकरामऊ	81		पैकरामऊ	पैकरामऊ
115		दसौली	दसौली			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
116		बसहा	बसहा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
117		अस्ती	अस्ती	82		अस्ती	अस्ती
118		भाखामऊ	भाखामऊ	83		भाखामऊ	भाखामऊ
119		पलका	पलका	84		पलका	पलका
			सादामऊ				सादामऊ
120		सीवां	सीवां	85		सीवां	सीवां
121		कौड़ियामऊ	कौड़ियामऊ	86		कौड़ियामऊ	कौड़ियामऊ
			हाजीचक				हाजीचक
122		मानपुर लाला	मानपुर लाला	87		मानपुर लाला	मानपुर लाला
123		फतेहपुर खेमरई	फतेहपुर खेमरई	88		फतेहपुर खेमरई	फतेहपुर खेमरई
			गोरवामऊ				गोरवामऊ
124		बराखेमपुर	बराखेमपुर	89		बराखेमपुर	बराखेमपुर
125		धनौहरी	धनौहरी	90		धनौहरी	धनौहरी
			नगवामऊ खुर्द				नगवामऊ खुर्द

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
126		कुम्हरावां	कुम्हरावां	91		कुम्हरावां	कुम्हरावां
127		गुलालपुर	गुलालपुर	92		गुलालपुर	गुलालपुर
			सरावां				सरावां
128		परसहिया	परसहिया	93		परसहिया	परसहिया
129		अल्दमपुर	अल्दमपुर	94		अल्दमपुर	अल्दमपुर
130		उनई	उनई	95		उनई	उनई
			हेमी				हेमी
131		दरियापुर	दरियापुर	96		दरियापुर	दरियापुर
			बाजपुर गंगौरा				बाजपुर गंगौरा
132		पहाड़पुर	पहाड़पुर	97		पहाड़पुर	पहाड़पुर
			मोहम्मदपुर सरैयां				मोहम्मदपुर सरैयां
133		भड़सर	भड़सर	98		भड़सर	भड़सर
			तारनपुर				तारनपुर
134		परसऊ	परसऊ	99		परसऊ	परसऊ
			भैंसी				भैंसी
			सिंहपुर				सिंहपुर
135		राजापुर सलेमपुर	राजापुर सलेमपुर	100		राजापुर सलेमपुर	राजापुर सलेमपुर
			मल्हीपुर				मल्हीपुर
136		सरसवां	सरसवां	101		सरसवां	सरसवां
137		मवईकला	मवईकला	102		मवईकला	मवईकला
			खन्तारी				खन्तारी
138		अतरौरा	अतरौरा	103		अतरौरा	अतरौरा
139		महिगंवा	महिगंवा	104		महिगंवा	महिगंवा
140		भरिगहना	भरिगहना	105		भरिगहना	भरिगहना
			हालूपुर				हालूपुर
			रायपुर बाबू				रायपुर बाबू
141		इन्दारा	इन्दारा	106		इन्दारा	इन्दारा
			खजुरी				खजुरी
142		नरोसा	नरोसा	107		नरोसा	नरोसा
143		टिकरी	टिकरी	108		टिकरी	टिकरी
			करीमनगर				करीमनगर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
144		सुभाननगर अरिगवां	सुभाननगर अरिगवां	109		सुभाननगर अरिगवां	सुभाननगर अरिगवां
			डरौना				डरौना
145		मोहम्मदपुर गढ़ी	मोहम्मदपुरगढ़ी	110		मोहम्मदपुर गढ़ी	मोहम्मदपुरगढ़ी
146		पलिया	पलिया	111		पलिया	पलिया
147		रेवामऊ	रेवामऊ	112		रेवामऊ	रेवामऊ
148	माल	ससपन	ससपन	113	माल	ससपन	ससपन
149		जमोलिया	जमोलिया	114		जमोलिया	जमोलिया
150		तिलन	तिलन	115		तिलन	तिलन
151		गोड़वा बरौकी	गोड़वा बरौकी	116		गोड़वा बरौकी	गोड़वा बरौकी
152		बहिर	बहिर	117		बहिर	बहिर
153		गोपालपुर	गोपालपुर	118		गोपालपुर	गोपालपुर
			कमालुद्दीननगर				कमालुद्दीननगर
154		सिसवारा	सिसवारा	119		सिसवारा	सिसवारा
155		उमरावल	उमरावल	120		उमरावल	उमरावल
156		अहिडर	अहिडर	121		अहिडर	अहिडर
157		रहटा	रहटा	122		रहटा	रहटा
158		थरी	थरी	123		थरी	थरी
159		सैदापुर	सैदापुर	124		सैदापुर	सैदापुर
160		आंट	आंट	125		आंट	आंट
161		खड़सरा	खड़सरा	126		खड़सरा	खड़सरा
162		बड़खोरवा	बड़खोरवा	127		बड़खोरवा	बड़खोरवा
163		गहदों	गहदों	128		गहदों	गहदों
164		मुड़ियारा	मुड़ियारा	129		मुड़ियारा	मुड़ियारा
165		अटारी	अटारी	130		अटारी	अटारी
166		शाहमऊ नौबस्ता	नौबस्ता	131		शाहमऊ नौबस्ता	नौबस्ता
			शाहमऊ				शाहमऊ
167		रूदानखेड़ा	रूदानखेड़ा	132		रूदानखेड़ा	रूदानखेड़ा
168		करेन्द	करेन्द	133		करेन्द	करेन्द
169		आंटगढ़ी सौरा	आंटगढ़ी सौरा	134		आंटगढ़ी सौरा	आंटगढ़ी सौरा
			विशुनपुर				विशुनपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
170		पारा भदराही	पारा भदराही	135		पारा भदराही	पारा भदराही
171		शंकरपुर	शंकरपुर	136		शंकरपुर	शंकरपुर
			गोधन				गोधन
172		सालेहनगर	सालेहनगर	137		सालेहनगर	सालेहनगर
173		जिन्दाना	जिन्दाना	138		जिन्दाना	जिन्दाना
174		बसन्तपुर	बसन्तपुर	139		बसन्तपुर	बसन्तपुर
			भेलमपुर				भेलमपुर
175		मवई खुर्द	मवई खुर्द	140		मवई खुर्द	मवई खुर्द
176		देवरीगजा	देवरीगजा	141		देवरीगजा	देवरीगजा
177		अकबरपुर	अकबरपुर	142		अकबरपुर	अकबरपुर
178		वीरपुर	वीरपुर	143		वीरपुर	वीरपुर
179		रायपुर	रायपुर	144		रायपुर	रायपुर
180		बदैयां	बदैयां	145		बदैयां	बदैयां
181		टिकरीकला	टिकरीकला	146		टिकरीकला	टिकरीकला
182		बहरौरा	बहरौरा	147		बहरौरा	बहरौरा
183		पिपरी खुराखर	पिपरी खुराखर	148		पिपरी खुराखर	पिपरी खुराखर
184		कमालपुर लोधौरा	कमालपुर लोधौरा	149		कमालपुर लोधौरा	कमालपुर लोधौरा
			दिघारा				दिघारा
185		मड़वाना	मड़वाना	150		मड़वाना	मड़वाना
			अटरिया				अटरिया
186		मंझी निकरोजपुर	मंझी निकरोजपुर	151		मंझी निकरोजपुर	मंझी निकरोजपुर
187		शाहपुर गोड़वा	शाहपुर गोड़वा	152		शाहपुर गोड़वा	शाहपुर गोड़वा
188		मझौवा	मझौवा	153		मझौवा	मझौवा
189		देवरी भारत	देवरी भारत	154		देवरी भारत	देवरी भारत
190		गुमसेना	गुमसेना	155		गुमसेना	गुमसेना
191		पकरा	पकरा	156		पकरा	पकरा
192		अमलौली	अमलौली	157		अमलौली	अमलौली
			पीरनगर				पीरनगर
193		किडौरा	किडौरा	158		किडौरा	किडौरा
194		नरायनपुर	नरायनपुर	159		नरायनपुर	नरायनपुर
			सुक्खूखेड़ा				सुक्खूखेड़ा
195		रनीपारा	रनीपारा	160		रनीपारा	रनीपारा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
196		नईबस्ती भिठौरा	नईबस्ती भिठौरा	161		नईबस्ती भिठौरा	नईबस्ती भिठौरा
197		रामनगर	रामनगर	162		रामनगर	रामनगर
198		अरुमऊ	अरुमऊ	163		अरुमऊ	अरुमऊ
			सुल्तानपुर				सुल्तानपुर
199		दनौर	दनौर	164		दनौर	दनौर
200		गौरइया	गौरइया	165		गौरइया	गौरइया
			जगदीशपुर बुजुर्ग				जगदीशपुर बुजुर्ग
201		लतीफपुर	लतीफपुर	166		लतीफपुर	लतीफपुर
			गढ़थम्मा				गढ़थम्मा
202		कोलवा भनौरा	कोलवा भनौरा	167		कोलवा भनौरा	कोलवा भनौरा
203		आदमपुर	आदमपुर	168		आदमपुर	आदमपुर
			खखरा				खखरा
204		पतौना	पतौना	169		पतौना	पतौना
205		सरथरा	सरथरा	170		सरथरा	सरथरा
206		सैबसी	सैबसी	171		सैबसी	सैबसी
207		नवीपनाह	नवीपनाह	172		नवीपनाह	नवीपनाह
			देवरीडांडा				देवरीडांडा
208		भानपुर	भानपुर	173		भानपुर	भानपुर
			दाउदपुर				दाउदपुर
			इब्राहिमपुर				इब्राहिमपुर
209		ढखवा	ढखवा	174		ढखवा	ढखवा
210		हसनापुर	हसनापुर	175		हसनापुर	हसनापुर
211		माल	माल	176		माल	माल
			नारु				नारु
			बिद्धिश्चामा				बिद्धिश्चामा
			भंवर				भंवर
			गागन बरौली				गागन बरौली
212		मसीढ़ा रतन	मसीढ़ा रतन	177		मसीढ़ा रतन	मसीढ़ा रतन
213		चंदवारा	चन्दवारा	178		चंदवारा	चन्दवारा
214		मसीढ़ा हमीर	मसीढ़ा हमीर	179		मसीढ़ा हमीर	मसीढ़ा हमीर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
215	मलिहाबाद	गौदामुअज्जम नगर	गौदामुअज्जम नगर	180	मलिहाबाद	गौदामुअज्जमनगर	गौदामुअज्जमनगर
216		सुरगौला	सुरगौला	181		सुरगौला	सुरगौला
			रसूलाबाद				रसूलाबाद
			चांदपुर				चांदपुर
217		भतोइया	भतोइया	182		भतोइया	भतोइया
			खुशहालपुर				खुशहालपुर
218		खड़ौहा	खड़ौहा	183		खड़ौहा	खड़ौहा
			पहाड़पुर				पहाड़पुर
219		गढ़ीसंजरखां	गढ़ी संजर खां	184		गढ़ीसंजरखां	गढ़ी संजर खां
220		अहमदाबाद कटौली	अहमदाबाद कटौली	185		अहमदाबाद कटौली	अहमदाबाद कटौली
221		रसूलपुर	रसूलपुर	186		रसूलपुर	रसूलपुर
222		माधौपुर	माधौपुर	187		माधौपुर	माधौपुर
223		बदौरा	बदौरा	188		बदौरा	बदौरा
			शहजादपुर				शहजादपुर
224		सरावां	सरावां	189		सरावां	सरावां
			टिकरीखुर्द				टिकरीखुर्द
			नजरनगर				नजरनगर
225		जौरिया	जौरिया	190		जौरिया	जौरिया
226		तरौना	तरौना	191		तरौना	तरौना
227		सहिजना	सहिजना	192		सहिजना	सहिजना
228		कैथुलिया	कैथुलिया	193		कैथुलिया	कैथुलिया
229		रुसैना	रुसैना	194		रुसैना	रुसैना
			चैना				चैना
230		सहिलामऊ	सहिलामऊ	195		सहिलामऊ	सहिलामऊ
231		मीठेनगर	मीठेनगर	196		मीठेनगर	मीठेनगर
			दुगौली				दुगौली
232		अल्लूपुर	अल्लूपुर	197		अल्लूपुर	अल्लूपुर
			बुधड़िया				बुधड़िया
			साहिलाबाद (गैर आबाद)				साहिलाबाद (गैर आबाद)
233		हबीबपुर	हबीबपुर	198		हबीबपुर	हबीबपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
234		मण्डौली	मण्डौली	199		मण्डौली	मण्डौली
235		टिकैतगंज	टिकैतगंज	200		टिकैतगंज	टिकैतगंज
236		खालिसपुर	खालिसपुर	201		खालिसपुर	खालिसपुर
237		जिन्दौर	जिन्दौर	202		जिन्दौर	जिन्दौर
238		फतेहपुर	फतेहपुर	203		फतेहपुर	फतेहपुर
239		दौलतपुर	दौलतपुर	204		दौलतपुर	दौलतपुर
			भटपुरवा				भटपुरवा
240		तिरगवां	तिरगवां	205		तिरगवां	तिरगवां
241		मनकौटी	मनकौटी	206		मनकौटी	मनकौटी
			रघुरामपुर (गैर आबाद)				रघुरामपुर (गैर आबाद)
242		मवई कला	मवई कला	207		मवई कला	मवई कला
243		महमूदनगर	महमूदनगर	208		महमूदनगर	महमूदनगर
			नेजाभारी				नेजाभारी
244		मुंजासा	मुंजासा	209		मुंजासा	मुंजासा
245		फिरोजपुर	फिरोजपुर	210		फिरोजपुर	फिरोजपुर
			सदरपुर				सदरपुर
246		मो०नगर तालुकेदारी	मो० नगर तालुकेदारी	211		मो० नगर तालुकेदारी	मो० नगर तालुकेदारी
247		मो०नगर रहमतनगर	मो० नगर रहमतनगर	212		मो० नगर रहमतनगर	मो० नगर रहमतनगर
248		नईबस्ती धनेवा	नईबस्ती धनेवा	213		नईबस्ती धनेवा	नईबस्ती धनेवा
249		कनार	कनार	214		कनार	कनार
250		कसमण्डीकला	कसमण्डीकला	215		कसमण्डीकला	कसमण्डीकला
251		फतेहनगर	फतेहनगर	216		फतेहनगर	फतेहनगर
			शिवदासपुर				शिवदासपुर
252		रमगढ़ा	रमगढ़ा	217		रमगढ़ा	रमगढ़ा
253		मलहा	मलहा	218		मलहा	मलहा
			गुखौरा				गुखौरा
254		कटौली	कटौली	219		कटौली	कटौली
			जमालनगर				जमालनगर
255		बहेलिया	बहेलिया	220		बहेलिया	बहेलिया
			किठाईपारा				किठाईपारा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
256		कसमण्डी खुर्द	कसमण्डीखुर्द	221		कसमण्डी खुर्द	कसमण्डीखुर्द
257		घुसौली	घुसौली	222		घुसौली	घुसौली
258		हटौली	हटौली	223		हटौली	हटौली
			जगदीशपुरखुर्द				जगदीशपुरखुर्द
259		भदवाना	भदवाना	224		भदवाना	भदवाना
			वाजिदनगर				वाजिदनगर
260		हमिरापुर	हमिरापुर	225		हमिरापुर	हमिरापुर
261		कहला	कहला	226		कहला	कहला
262		सेंधरवा	सेंधरवा	227		सेंधरवा	सेंधरवा
263		हरिहरपुर	हरिहरपुर	228		हरिहरपुर	हरिहरपुर
264		भदेसरमऊ	भदेसरमऊ	229		भदेसरमऊ	भदेसरमऊ
265		दिलावरनगर	दिलावरनगर	230		दिलावरनगर	दिलावरनगर
266		गोसवा	गोसवा	231		गोसवा	गोसवा
			तेरवा				तेरवा
			बेलवा				बेलवा
267		ईशापुर	ईशापुर	232		ईशापुर	ईशापुर
			हाशिमपुर				हाशिमपुर
268		बख्तियारनगर	बख्तियारनगर	233		बख्तियारनगर	बख्तियारनगर
			बड़ी जलालपुर				बड़ी जलालपुर
269		शेरपुर भौसा	शेरपुर भौसा	234		शेरपुर भौसा	शेरपुर भौसा
270		कुन्दरा खुर्द	कुन्दरा खुर्द	235		कुन्दरा खुर्द	कुन्दरा खुर्द
			कुन्दराकला				कुन्दराकला
271		बड़ीगढ़ी	बड़ी गढ़ी	236		बड़ीगढ़ी	बड़ी गढ़ी
			कुकरा				कुकरा
272		बेलगढ़ा	बेलगढ़ा	237		बेलगढ़ा	बेलगढ़ा
			लुधौसी				लुधौसी
273		तिलसुवा	तिलसुवा	238		तिलसुवा	तिलसुवा
274		पुरवा	पुरवा	239		पुरवा	पुरवा
275		दुलारमऊ	दुलारमऊ	240		दुलारमऊ	दुलारमऊ
			भुलसी				भुलसी
276		ढेढेमऊ	ढेढेमऊ	241		ढेढेमऊ	ढेढेमऊ
277		नवीनगर	नवीनगर	242		नवीनगर	नवीनगर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
278		दतली	दतली	243		दतली	दतली
			गोड़वा				गोड़वा
			अटौरा				अटौरा
279		बिराहिमपुर	बिराहिमपुर	244		बिराहिमपुर	बिराहिमपुर
			रामपुर बस्ती				रामपुर बस्ती
280		महदोइया	महदोइया	245		महदोइया	महदोइया
			भोगलामऊ				भोगलामऊ
281		खड़ता	खड़ता	246		खड़ता	खड़ता
282	काकोरी	थावर	थावर	247	काकोरी	थावर	थावर
283		मनभौना	मनभौना	248		मनभौना	मनभौना
			अतरौली (गैर आबाद)				अतरौली (गैर आबाद)
284		सिरगामऊ	सिरगामऊ	249		सिरगामऊ	सिरगामऊ
285		जगतापुर	जगतापुर	250		जगतापुर	जगतापुर
			अल्लूपुर				अल्लूपुर
286		कुशभरी	कुशभरी	251		कुशभरी	कुशभरी
			पड़रा थावर				पड़रा थावर
287		गोपरामऊ	गोपरामऊ	252		गोपरामऊ	गोपरामऊ
			रनियामऊ				रनियामऊ
288		सरसण्डा	सरसण्डा	253		सरसण्डा	सरसण्डा
			बीघापुर				बीघापुर
289		काकराबाद	काकराबाद	254		काकराबाद	काकराबाद
290		बंशीगढ़ी	बंशीगढ़ी	255		बंशीगढ़ी	बंशीगढ़ी
291		मौरा	मौरा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
292		जेहटा	जेहटा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
293		सैथा	सैथा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
294		सरायं प्रेमराज	सरायं प्रेमराज				अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित
			लालनगर				अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित
295		अमेठिया सलेमपुर	अमेठिया सलेमपुर	256		अमेठिया सलेमपुर	अमेठिया सलेमपुर
296		पहिया आजमपुर	पहिया आजमपुर	257		पहिया आजमपुर	पहिया आजमपुर
297		महिपतमऊ	महिपतमऊ				अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित
298		कुशमौरा हलुवापुर	कुशमौरा हलुवापुर	258		कुशमौरा हलुवापुर	कुशमौरा हलुवापुर
299		ए०टी०ए० काकोरी	काकोरी	259		ए०टी०ए० काकोरी	काकोरी
300		सैदपुर महेरी	सैदपुर महेरी	260		सैदपुर महेरी	सैदपुर महेरी
			चकदादनपुर				चकदादनपुर
			मुहिद्दीनपुर				मुहिद्दीनपुर
301		सलेमपुर पतौरा	सलेमपुर पतौरा				अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित
302		मु०नगर पलिया	मुजफ्फर नगर पलिया	261		मु०नगर पलिया	मुजफ्फर नगर पलिया
			पलिया				पलिया
			बिदौना				बिदौना
303		दशहरी	दशहरी	262		दशहरी	दशहरी
			रायपुर				रायपुर
304		सिकरौरी	सिकरौरी				अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित
305		खुशहालगंज	खुशहालगंज	263		खुशहालगंज	खुशहालगंज
306		हरदोईयालालनगर	हरदोईयालाल नगर	264		हरदोईयालालनगर	हरदोईयालाल नगर
307		शिवरी	शिवरी	265		शिवरी	शिवरी
			महतवा				महतवा
308		फतेहगंज	फतेहगंज	266		फतेहगंज	फतेहगंज

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
309		नरौना	नरौना			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
310		सरोसा-भरोसा	सरोसा-भरोसा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
311		बहरू	बहरू	267		बहरू	बहरू
312		बसरैला	बसरैला	268		बसरैला	बसरैला
313		सरायं अलीपुर	सरायं अलीपुर	269		सरायं अलीपुर	सरायं अलीपुर
314		सैफलपुर	सैफलपुर	270		सैफलपुर	सैफलपुर
			सूदी				सूदी
			दरियापुर				दरियापुर
315		शेरपुरमऊ	शेरपुर मऊ	271		शेरपुरमऊ	शेरपुर मऊ
			खानपुर मऊ				खानपुर मऊ
316		गोशालालपुर	गोशालालपुर	272		गोशालालपुर	गोशालालपुर
317		बड़ागांव	बड़ागांव	273		बड़ागांव	बड़ागांव
318		टेड़वा	टेड़वा	274		टेड़वा	टेड़वा
			ग्वालपुर				ग्वालपुर
319		मुबारकपुर	मुबारकपुर	275		मुबारकपुर	मुबारकपुर
			चकपरेवा				चकपरेवा
			चिलौली				चिलौली
320		करझन	करझन	276		करझन	करझन
			अजमतनगर				अजमतनगर
			महमूदपुर				महमूदपुर
321		गोहरामऊ	गोहरामऊ	277		गोहरामऊ	गोहरामऊ
322		दशदोई	दशदोई	278		दशदोई	दशदोई
			बिगहू				बिगहू
323		करीमाबाद	करीमाबाद	279		करीमाबाद	करीमाबाद
324		भलिया	भलिया	280		भलिया	भलिया
325		दोना	दोना	281		दोना	दोना
			नकटौरा				नकटौरा
326		कुसमी	कुसमी	282		कुसमी	कुसमी
			आदमपुर इन्द्रवारा				आदमपुर इन्द्रवारा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
327		गहलवारा	गहलवारा	283		गहलवारा	गहलवारा
			रेवरी				रेवरी
328		भटऊ जमालपुर	भटऊ जमालपुर	284		भटऊ जमालपुर	भटऊ जमालपुर
329		जलियामऊ	जलियामऊ	285		जलियामऊ	जलियामऊ
330		शाहपुर	शाहपुर	286		शाहपुर	शाहपुर
331		सकरा	सकरा	287		सकरा	सकरा
332		तेजकिशनखेड़ा	तेजकिशनखेड़ा	288		तेजकिशनखेड़ा	तेजकिशनखेड़ा
333		पुरैना	पुरैना	289		पुरैना	पुरैना
			सरायं मुहीब				सरायं मुहीब
334		इब्राहिमगंज	इब्राहिमगंज	290		इब्राहिमगंज	इब्राहिमगंज
			मदारपुर				मदारपुर
335		कठिंगरा	कठिंगरा	291		कठिंगरा	कठिंगरा
			बेलवा				बेलवा
336		कूढाईटगांव	कूढाईटगांव	292		कूढाईटगांव	कूढाईटगांव
337		बरकताबाद	बरकताबाद जहांगीर	293		बरकताबाद	बरकताबाद जहांगीर
338	सरोजनीनगर	बन्थरा	बन्थरा सिकन्दरपुर		सरोजनीनगर	अधिसूचना संख्या 2862/9-1-2019-52टी0ए0-15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 नगर पंचायत बन्थरा में सम्मिलित	
339		बेंती	बेंती	294		बेंती	बेंती
340		भौकापुर	भौकापुर	295		भौकापुर	भौकापुर
341		बनी	बनी	296		बनी	बनी
342		पहाड़पुर	पहाड़पुर	297		पहाड़पुर	पहाड़पुर
343		सरायं शहजादी	सरायं शहजादी	298		सरायं शहजादी	सरायं शहजादी
344		खाण्डेदेव	खाण्डेदेव			अधिसूचना संख्या 2862/9-1-2019-52टी0ए0-15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 नगर पंचायत बन्थरा में सम्मिलित	
345		घुसवलकला	घुसवलकला			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			देवामऊ			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
346		सेवंई	सेवंई			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
347		हरिहरपुर	हरिहरपुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			मलाक			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
348		मुजफ्फरनगर घुसवल	मुजफ्फर नगर घुसवल			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
349		यूसुफनगर	यूसुफनगर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
350		अहमामऊ	अहमामऊ			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			अरदौनामऊ			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
351		सरसवां	सरसवां			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
352		बरौना	बरौना			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
353		हसनपुर केवली	हसनपुर खेवली			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
354		निजामपुर मझिगवां	निजामपुर मझगवां			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
355		ऐन	ऐन	299		ऐन	ऐन
356		गोदौली	गोदौली	300		गोदौली	गोदौली
357		नामऊ	नानमऊ	301		नामऊ	नानमऊ
358		तेरवा	तेरवा	302		तेरवा	तेरवा
359		नरायनपुर	नरायनपुर	303		नरायनपुर	नरायनपुर
360		सादुल्लानगर	सादुल्लानगर	304		सादुल्लानगर	सादुल्लानगर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
361		कुरौनी	कुरौनी	305		कुरौनी	कुरौनी
362		मीरानपुर पिनवट	मीरानपुर पिनवट			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
363		नीवां	नीवां	306		नीवां	नीवां
364		किशुनपुर कौड़िया	किशुनपुर कौड़िया			अधिसूचना संख्या 2862/9-1-2019-52टी0ए0-15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 नगर पंचायत बन्धरा में सम्मिलित	
			जहानाबाद			अधिसूचना संख्या 2862/9-1-2019-52टी0ए0-15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 नगर पंचायत बन्धरा में सम्मिलित	
365		मखदूमपुर कैथी	मखदूमपुर कैथी	307		मखदूमपुर कैथी	मखदूमपुर कैथी
			शाहपुर मझगवां				शाहपुर मझगवां
366		बीबीपुर	बीबीपुर	308		बीबीपुर	बीबीपुर
367		खसरवारा	खसरवारा	309		खसरवारा	खसरवारा
			धावांपुर खसरवारा				धावांपुर खसरवारा
368		कल्ली पश्चिम	कल्ली पश्चिम			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
369		कल्ली पूरब	कल्ली पूरब	310		कल्ली पूरब	कल्ली पूरब
370		बिरुरा	बिरुरा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			बरौली खलीलाबाद			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
371		परवर पश्चिम	परवर पश्चिम	311		परवर पश्चिम	परवर पश्चिम
372		परवर पूरब	परवर पूरब	312		परवर पूरब	परवर पूरब
373		माती	माती	313		माती	माती
374		मेमौरा	मेमौरा	314		मेमौरा	मेमौरा
375		खटोला	खटोला	315		खटोला	खटोला
			रतौली				रतौली
376		जैतीखेड़ा	जैतीखेड़ा	316		जैतीखेड़ा	जैतीखेड़ा
			भागूखेड़ा				भागूखेड़ा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
377		मौंदा	मौंदा	317		मौंदा	मौंदा
378		अनौरा	अनौरा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			अलीनगर सुनहरा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
379		सदरौना	सदरौना			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
380		समदाखेड़ा	समदाखेड़ा	318		समदाखेड़ा	समदाखेड़ा
			कलियाखेड़ा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
381		प्यारेपुर	प्यारेपुर	319		प्यारेपुर	प्यारेपुर
			दिधिया				दिधिया
382		बिजनौर	बिजनौर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
383		अशरफनगर इटुरिया	अशरफनगर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			रसूलपुर इटुरिया			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
384		नूरपुर भदरसा	नूरपुर भदरसा	320		नूरपुर भदरसा	नूरपुर भदरसा
			सरैयां				सरैयां
385		नटकुर	नटकुर			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
386		चन्द्रावल	चन्द्रावल	321		चन्द्रावल	चन्द्रावल
387		कमलापुर	अहमदपुर उर्फ कमलापुर	322		कमलापुर	अहमदपुर उर्फ कमलापुर
			अलीनगर खुर्द			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
388		पिपरसण्ड	पिपरसण्ड	323		पिपरसण्ड	पिपरसण्ड
389		लोनहा	लोनहा	324		लोनहा	लोनहा
390		चकौली	चकौली	325		चकौली	चकौली
			अंधपुर उमराव				अंधपुर उमराव
391		बेहटा	बेहटा	326		बेहटा	बेहटा
392		खुर्रमपुर	खुर्रमपुर	327		खुर्रमपुर	खुर्रमपुर
			पलेहन्दा				पलेहन्दा
393		भटगांव	भटगांव	328		भटगांव	भटगांव
394		रमचौरा	रमचौरा			अधिसूचना संख्या 2862/9-1-2019-52टी0ए0-15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत बन्धरा में सम्मिलित	
395		दादूपुर	दादूपुर	329		दादूपुर	दादूपुर
396		औरावां	औरावां			अधिसूचना संख्या 2862/9-1-2019-52टी0ए0-15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत बन्धरा में सम्मिलित	
397		अन्धपुरदेव	अन्धपुरदेव	330		अन्धपुरदेव	अन्धपुरदेव
398		गढ़ी चुनौटी	गढ़ी चुनौटी	331		गढ़ी चुनौटी	गढ़ी चुनौटी
399		अमावां	अमावां	332		अमावां	अमावां
400		सहिजनपुर	सहिजनपुर	333		सहिजनपुर	सहिजनपुर
			रामदासपुर				रामदासपुर
401		भदोई	भदोई	334		भदोई	भदोई
402		मवई पड़ियाना	मवई पड़ियाना	335		मवई पड़ियाना	मवई पड़ियाना
403		लतीफनगर	लतीफनगर	336		लतीफनगर	लतीफनगर
404		सैदपुर पुरही	सैदपुर पुरही	337		सैदपुर पुरही	सैदपुर पुरही
			दाराबनगर बरकोता				दाराबनगर बरकोता
405		रहीमनगर पड़ियाना	रहीमनगर पड़ियाना	338		रहीमनगर पड़ियाना	रहीमनगर पड़ियाना
			बहिजनामऊ				बहिजनामऊ
406		भटगांव पाण्डेय	भटगांव पाण्डेय	339		भटगांव पाण्डेय	भटगांव पाण्डेय
			हुलासखेड़ा				हुलासखेड़ा
			मिर्जापुर लुटौवा				मिर्जापुर लुटौवा
407		हरौनी	हरौनी	340		हरौनी	हरौनी

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
408	मोहनलालगंज	करोरा	करोरा	341	मोहनलालगंज	करोरा	करोरा
409		अचलीखेड़ा	अचलीखेड़ा	342		अचलीखेड़ा	अचलीखेड़ा
410		जमालपुर ददुरी	जमालपुर ददुरी	343		जमालपुर ददुरी	जमालपुर ददुरी
411		तमोरिया मदारपुर	मदारपुर	344		तमोरिया मदारपुर	मदारपुर
			तमोरिया				तमोरिया
412		कुबहरा	कुबहरा	345		कुबहरा	कुबहरा
413		बलसिंहखेड़ा	बलसिंहखेड़ा	346		बलसिंहखेड़ा	बलसिंहखेड़ा
414		देवती	देवती	347		देवती	देवती
			गौरियाखुर्द				गौरियाखुर्द
415		भौंदरी	भौंदरी	348		भौंदरी	भौंदरी
416		धनुवासांड	धनुवा सांड	349		धनुवासांड	धनुवा सांड
417		भदेसुवा	भदेसुवा	350		भदेसुवा	भदेसुवा
418		उत्तरगांव	उत्तरगांव	351		उत्तरगांव	उत्तरगांव
419		भसण्डा	भसण्डा	352		भसण्डा	भसण्डा
420		डेहवा	डेहवा			अधिसूचना संख्या 2800/9-1-2019-30टी0(1)-13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मोहनलालगंज में सम्मिलित	
421		सिसेण्डी	सिसेण्डी	353		सिसेण्डी	सिसेण्डी
422		डेवरिया भरोसवा	डेवरिया भरोसवा	354		डेवरिया भरोसवा	डेवरिया भरोसवा
423		मीरानपुर	मीरानपुर	355		मीरानपुर	मीरानपुर
424		सल्सामऊ हिलगी	सल्सामऊ हिलगी	356		सल्सामऊ हिलगी	सल्सामऊ हिलगी
			मीनापुर				मीनापुर
425		कोड़रा रायपुर	कोड़रा रायपुर	357		कोड़रा रायपुर	कोड़रा रायपुर
426		इन्द्रजीतखेड़ा	इन्द्रजीतखेड़ा			इन्द्रजीतखेड़ा की जनसंख्या 1000 से कम होने के कारण इसे निकटतम ग्राम पंचायत रायभानखेड़ा में सम्मिलित कर दिया गया है।	इन्द्रजीतखेड़ा की जनसंख्या 1000 से कम होने के कारण इसे निकटतम ग्राम पंचायत रायभानखेड़ा में सम्मिलित कर दिया गया है।
			मऊ			अधिसूचना संख्या 2800/9-1-2019-30टी0(1)-13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मोहनलालगंज में सम्मिलित	

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
427		पुरसैनी	पुरसैनी			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित/ अधिसूचना संख्या 2800/9-1-2019-30टी0(1)-13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मोहनलालगंज में सम्मिलित	
428		डलौना	डलौना	358		डलौना	डलौना
			हरिकंश गढ़ी			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित/ अधिसूचना संख्या 2800/9-1-2019-30टी0(1)-13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मोहनलालगंज में सम्मिलित	
429		खुजेहटा	खुजेहटा	359		खुजेहटा	खुजेहटा
430		रायभानखेड़ा	रायभान खेड़ा	360		रायभानखेड़ा	रायभान खेड़ा
			धर्मावतखेड़ा				धर्मावतखेड़ा
			धरमंगतखेड़ा				धरमंगतखेड़ा
							इन्द्रजीतखेड़ा
431		नगराम	नगराम	361		नगराम	नगराम
432		अमवा मुर्तजापुर	अमवा मुर्तजापुर	362		अमवा मुर्तजापुर	अमवा मुर्तजापुर
433		करोरवा	करोरवा	363		करोरवा	करोरवा
434		गढ़ा	गढ़ा	364		गढ़ा	गढ़ा
			अब्बासनगर				अब्बासनगर
			असलमनगर				असलमनगर
435		दयालपुर	दयालपुर	365		दयालपुर	दयालपुर
			भजन मऊ				भजन मऊ
436		मंगटइया	मंगटइया	366		मंगटइया	मंगटइया
437		विरसिंहपुर	विरसिंहपुर	367		विरसिंहपुर	विरसिंहपुर
438		रघुनाथखेड़ा	रघुनाथखेड़ा	368		रघुनाथखेड़ा	रघुनाथखेड़ा
			मदारीखेड़ा				मदारीखेड़ा
439		राती	राती	359		राती	राती
440		अकबरपुर बेनीगंज	अकबरपुर बेनीगंज	370		अकबरपुर बेनीगंज	अकबरपुर बेनीगंज

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
441		भददीशीर्ष	भददीखेड़ा	371		भददीशीर्ष	भददीखेड़ा
			शीर्ष				शीर्ष
			हरनामखेड़ा				हरनामखेड़ा
442		हुलासखेड़ा	हुलास खेड़ा	372		हुलासखेड़ा	हुलास खेड़ा
443		अतरौली	अतरौली			अधिसूचना संख्या 2800/9-1-2019-30टी0(1)-13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मोहनलालगंज में सम्मिलित	
444		गौरा	गौरा			अधिसूचना संख्या 2800/9-1-2019-30टी0(1)-13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मोहनलालगंज में सम्मिलित	
445		बिन्दौवा	बिन्दौवा			अधिसूचना संख्या 2800/9-1-2019-30टी0(1)-13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मोहनलालगंज में सम्मिलित	
			अहमदपुर खालसा			अधिसूचना संख्या 2800/9-1-2019-30टी0(1)-13, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत मोहनलालगंज में सम्मिलित	
446		डाडा सिकन्दरपुर	डाडा सिकन्दरपुर	373		डाडा सिकन्दरपुर	डाडा सिकन्दरपुर
			गदियाना				गदियाना
447		कुढ़ा	कुढ़ा	374		कुढ़ा	कुढ़ा
448		परसपुर ठट्ठा	परसपुर ठट्ठा	375		परसपुर ठट्ठा	परसपुर ठट्ठा
			गौतमखेड़ा				गौतमखेड़ा
449		जबरौली	जबरौली	376		जबरौली	जबरौली
450		कुशमौरा	कुसमौरा	377		कुशमौरा	कुसमौरा
451		बरबलिया	बरवलिया	378		बरबलिया	बरवलिया
452		गोविन्दपुर	गोविन्दपुर	379		गोविन्दपुर	गोविन्दपुर
			भीलमपुर				भीलमपुर
453		मीरखनगर	मीरखनगर	380		मीरखनगर	मीरखनगर
454		कांटा करौंदी	कांटा करौंदी	381		कांटा करौंदी	कांटा करौंदी
455		सलेमपुर अचाका	सलेमपुर अचाका	382		सलेमपुर अचाका	सलेमपुर अचाका
456		हसनपुर	हसनपुर	383		हसनपुर	हसनपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
457		कनेरी	कनेरी	384		कनेरी	कनेरी
458		छतौनी	छतौनी	385		छतौनी	छतौनी
459		दहियर	दहियर	386		दहियर	दहियर
			शिवढरा				शिवढरा
460		सरथुआ	सरथुआ	387		सरथुआ	सरथुआ
			मोहिद्दीनपुर				मोहिद्दीनपुर
461		परेहटा	परेहटा	388		परेहटा	परेहटा
462		दाउदनगर	दाउदनगर	389		दाउदनगर	दाउदनगर
			पूरनपुर				पूरनपुर
463		खुजौली	खुजौली	390		खुजौली	खुजौली
464		पुरहिया	पुरहिया	391		पुरहिया	पुरहिया
465		दखिना शेखपुर	दखिना शेखपुर	392		दखिना शेखपुर	दखिना शेखपुर
466		लालपुर	लालपुर	393		लालपुर	लालपुर
467		बघौना	बघौना	394		बघौना	बघौना
468		नन्दौली	नन्दौली	395		नन्दौली	नन्दौली
			जमोरिया				जमोरिया
469		रामदासपुर	रामदासपुर	396		रामदासपुर	रामदासपुर
470		रतनपुर	रतनपुर	397		रतनपुर	रतनपुर
			भटपुरा				भटपुरा
471		भगवानपुर	भगवानपुर	398		भगवानपुर	भगवानपुर
			इमिलिहा				इमिलिहा
472		अघैया	अघैया	399		अघैया	अघैया
			हरिहरपुर पटसा				हरिहरपुर पटसा
473		नटौली	नटौली	400		नटौली	नटौली
			खुद्दीखेड़ा				खुद्दीखेड़ा
474		समेसी	समेसी	401		समेसी	समेसी
475		शाहमो०पुर अपैया	शाहमो०पुर अपैया	402		शाहमो०पुर अपैया	शाहमो०पुर अपैया
			अहमदपुर आजमअली				अहमदपुर आजमअली
476		पतौना	पतौना	403		पतौना	पतौना
477		कमालपुर बिचलिका	कमालपुर बिचलिका	404		कमालपुर बिचलिका	कमालपुर बिचलिका

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
478		उतरावां	उतरावां	405		उतरावां	उतरावां
479		निगोहां	निगोहां	406		निगोहां	निगोहां
480		शेरपुर लवल	शेरपुर लवल	407		शेरपुर लवल	शेरपुर लवल
481		बैरीसालपुर	बैरीसालपुर	408		बैरीसालपुर	बैरीसालपुर
482		करनपुर	करनपुर	409		करनपुर	करनपुर
483		भावाखेड़ा	भावाखेड़ा	410		भावाखेड़ा	भावाखेड़ा
484		उदयपुर	उदयपुर	411		उदयपुर	उदयपुर
485		ब्रम्हदासपुर	ब्रम्हदासपुर	412		ब्रम्हदासपुर	ब्रम्हदासपुर
486		रामपुर गढ़ीजमुनी	रामपुर गढ़ीजमुनी	413		रामपुर गढ़ीजमुनी	रामपुर गढ़ीजमुनी
487		दिघारी	दिघारी	414		दिघारी	दिघारी
488		कनकहा	कनकहा	415		कनकहा	कनकहा
489		गढ़ी मेहदौली	गढ़ी मेहदौली	416		गढ़ी मेहदौली	गढ़ी मेहदौली
490		मस्तीपुर	मस्तीपुर	417		मस्तीपुर	मस्तीपुर
491		मदापुर टिकरा	मदापुर टिकरा	418		मदापुर टिकरा	मदापुर टिकरा
492	गोसाईगंज	बक्कास	बक्कास	419	गोसाईगंज	बक्कास	बक्कास
493		मस्तेमऊ	मस्तेमऊ			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
494		माढ़रमऊ	माढ़रमऊ कला			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			माढ़रमऊ खुर्द			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
			चक कंजेहरा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
495		दुलारमऊ	दुलारमऊ	420		दुलारमऊ	दुलारमऊ
			ढखवा				ढखवा
496		चुरहिया	चुरहिया	421		चुरहिया	चुरहिया
			चौरासी				चौरासी

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
497		मलूकपुर	मलूकपुर	422		मलूकपुर	मलूकपुर
498		पहाड़नगर टिकरिया	पहाड़नगर टिकरिया	423		पहाड़नगर टिकरिया	पहाड़नगर टिकरिया
499		सिकन्दरपुर अमोलिया	सिकन्दरपुर अमोलिया	424		सिकन्दरपुर अमोलिया	सिकन्दरपुर अमोलिया
			रकीबाबाद				रकीबाबाद
500		सोनई कजेहरा	सोनई कजेहरा			अधिसूचना संख्या 2183/नौ-7-19-324 (लखनऊ)-2016, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर निगम लखनऊ में सम्मिलित	
501		हबुआपुर	हबुआपुर	425		हबुआपुर	हबुआपुर
502			सिद्धपुरा				सिद्धपुरा
		भटवारा	भटवारा	426		भटवारा	भटवारा
503		सठवारा	सठवारा	427		सठवारा	सठवारा
504		मगहुआ	मगहुवा	428		मगहुआ	मगहुवा
505		कबीरपुर	कबीरपुर	429		कबीरपुर	कबीरपुर
			मुअज्जमनगर				मुअज्जमनगर
506		कासिमपुर बिरुहा	कासिमपुर बिरुहा	430		कासिमपुर बिरुहा	कासिमपुर बिरुहा
507		सलौली	सलौली	431		सलौली	सलौली
508		सेमनापुर	सेमनापुर	432		सेमनापुर	सेमनापुर
			कोरियानी				कोरियानी
509		मलौली	मलौली	433		मलौली	मलौली
510		चांद सरायं	चांद सरायं	434		चांद सरायं	चांद सरायं
			बलियाखेड़ा				बलियाखेड़ा
511		महमूदपुर	महमूदपुर	435		महमूदपुर	महमूदपुर
512		बाजूपुर	बाजूपुर	436		बाजूपुर	बाजूपुर
			बखारी				बखारी
513		नूरपुर बेहटा	नूरपुर बेहटा	437		नूरपुर बेहटा	नूरपुर बेहटा
			सल्लाहीमऊ				सल्लाहीमऊ
514		फरीदपुर	फरीदपुर	438		फरीदपुर	फरीदपुर
			दौदामऊ				दौदामऊ
515		सुरियामऊ	सुरियामऊ	439		सुरियामऊ	सुरियामऊ
			सहस घाट				सहस घाट
516		मीसा	मीसा	440		मीसा	मीसा

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
517		रसूलपुर टिकनियामऊ	रसूलपुर टिकनियामऊ	441		रसूलपुर टिकनियामऊ	रसूलपुर टिकनियामऊ
518		जहांगीरपुर	जहांगीरपुर	442		जहांगीरपुर	जहांगीरपुर
519		बेगरियामऊ	बेगरिया	443		बेगरियामऊ	बेगरिया
			अलियामऊ				अलियामऊ
520		निजामपुर	निजामपुर	444		निजामपुर	निजामपुर
521		गौरियाकला	गौरियाकला	445		गौरियाकला	गौरियाकला
522		काजीखेड़ा	काजीखेड़ा	446		काजीखेड़ा	काजीखेड़ा
523		सदरपुर करोरा	सदरपुर करोरा	447		सदरपुर करोरा	सदरपुर करोरा
			सरायं करोरा				सरायं करोरा
524		मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद	448		मोहम्मदाबाद	मोहम्मदाबाद
			फतेहपुर				फतेहपुर
			चमरतलिया				चमरतलिया
			चौगानपुर				चौगानपुर
525		घुसकर	घुसकर	449		घुसकर	घुसकर
526		धौरहरा	धौरहरा	450		धौरहरा	धौरहरा
527		शिवलर	शिवलर	451		शिवलर	शिवलर
528		इचवलिया पहासा	इचवलिया	452		इचवलिया पहासा	इचवलिया
			पहासा				पहासा
529		रतियामऊ	रतियामऊ	453		रतियामऊ	रतियामऊ
			जमालपुर कुर्मियान				जमालपुर कुर्मियान
530		बेली	बेली	454		बेली	बेली
531		रहमतनगर	रहमतनगर	455		रहमतनगर	रहमतनगर
			सीफतनगर				सीफतनगर
			लखपेड़ा				लखपेड़ा
532		बरुआ	बरुआ	456		बरुआ	बरुआ
			बस्तौली				बस्तौली
533		सलेमपुर	सलेमपुर	457		सलेमपुर	सलेमपुर
534		मोहम्मदपुर गढ़ी	मोहम्मदपुर गढ़ी	458		मोहम्मदपुर गढ़ी	मोहम्मदपुर गढ़ी
535		गोमीखेड़ा	गोमीखेड़ा	459		गोमीखेड़ा	गोमीखेड़ा
536		महुराखुर्द	महुराखुर्द	460		महुराखुर्द	महुराखुर्द

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
537		हसनापुर	हसनापुर	461		हसनापुर	हसनापुर
			कुतुबपुर				कुतुबपुर
538		बसरहिया	बसरहिया	462		बसरहिया	बसरहिया
			गढ़ी मुस्तफाबाद				गढ़ी मुस्तफाबाद
539		सेखनापुर	सेखनापुर	463		सेखनापुर	सेखनापुर
540		दाउदपुर सैदापुर	दाउदपुर सैदापुर	464		दाउदपुर सैदापुर	दाउदपुर सैदापुर
541		बस्तिया	बस्तिया	465		बस्तिया	बस्तिया
542		जौखण्डी	जौखण्डी	466		जौखण्डी	जौखण्डी
543		बहरौली	बहरौली	467		बहरौली	बहरौली
544		रसूलपुर आशिक अली	रसूलपुर आशिक अली	468		रसूलपुर आशिक अली	रसूलपुर आशिक अली
			शहजादेपुर				शहजादेपुर
545		घोड़सारा	घोड़सारा	469		घोड़सारा	घोड़सारा
546		आदमपुर नौबस्ता	आदमपुर नौबस्ता	470		आदमपुर नौबस्ता	आदमपुर नौबस्ता
547		बजगिहा	बजगिहा	471		बजगिहा	बजगिहा
			ख्वासखेड़ा				ख्वासखेड़ा
548		हरदोईया	हरदोईया	472		हरदोईया	हरदोईया
549		अनैया खरगापुर	अनैया खरगापुर	473		अनैया खरगापुर	अनैया खरगापुर
550		हुसैनाबाद दल्हापुर	हुसैनाबाद दल्हापुर	474		हुसैनाबाद दल्हापुर	हुसैनाबाद दल्हापुर
551		इस्माईलनगर	इस्माईलनगर	475		इस्माईलनगर	इस्माईलनगर
552		आदमपुर मितौली	आदमपुर मितौली	476		आदमपुर मितौली	आदमपुर मितौली
553		अकरहदू	अकरहदू	477		अकरहदू	अकरहदू
554		ममई मऊ	ममई मऊ	478		ममई मऊ	ममई मऊ
			सिरोना				सिरोना
555		सेल्हूमऊ	सेल्हूमऊ	479		सेल्हूमऊ	सेल्हूमऊ
			हरई				हरई
556		कपेरा मदारपुर	कपेरा मदारपुर	480		कपेरा मदारपुर	कपेरा मदारपुर
			दखिनवारा				दखिनवारा
557		अस्ती	अस्ती	481		अस्ती	अस्ती

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
558		पंचसरा	पंचसरा	482		पंचसरा	पंचसरा
			अहमदपुर अहसानअली				अहमदपुर अहसानअली
559		केवली	केवली	483		केवली	केवली
560		सरायं गुदौली	सरायं गुदौली	484		सरायं गुदौली	सरायं गुदौली
561		महुराकला	महुराकला	485		महुराकला	महुराकला
562		बघौली	बघौली	486		बघौली	बघौली
			करसण्डा				करसण्डा
563		सिठौलीकला	सिठौली कला	487		सिठौलीकला	सिठौली कला
			सिठौली खुर्द				सिठौली खुर्द
564		मोहारी कला	मोहारी कला	488		मोहारी कला	मोहारी कला
565		मोहारीखुर्द	मोहारी खुर्द	489		मोहारीखुर्द	मोहारी खुर्द
566		रायपुर सदरा	रायपुर	490		रायपुर सदरा	रायपुर
			सदरपुर				सदरपुर
			देहरामऊ				देहरामऊ
567		भट्ठी बरकतनगर	भट्ठी बरकतनगर	491		भट्ठी बरकतनगर	भट्ठी बरकतनगर
			टिकरा जुगराज				टिकरा जुगराज
568		भौरा खुर्द	भौरा खुर्द	492		भौरा खुर्द	भौरा खुर्द
			भौरा कला				भौरा कला
569		सेमरापीतपुर	सेमरापीतपुर	493		सेमरापीतपुर	सेमरापीतपुर
570		देई टीकर	देई टीकर	494		देई टीकर	देई टीकर

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/81/2015-4/106(लखनऊ)-2014, दिनांक 12 जनवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 413 राजपत्र-2020-(931) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 15 सा० पंचायती राज-2020-(932)132 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।